



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 12.11.20

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना मितौली पुलिस द्वारा 5.3 किग्रा गांजा सहित अभियुक्त राजेंद्र उर्फ बुलाकी को किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 12/11/2020 को थाना मितौली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 5.3 किग्रा गांजा बरामद कर अभियुक्त राजेंद्र उर्फ बुलाकी पुत्र रामपाल पासी निवासी नि० ढकिया कुस्तौल थाना मितौली खीरी को गिरफ्तार किया गया। उक्त घटना के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा 1 किग्रा गांजा सहित अभियुक्त धर्मेश शुक्ला उर्फ टापू महाराज को किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध मादक पदार्थों के निर्माण , बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 12.11.2020 को थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा लखीमपुर मिलपुरवा रोड रपटा पुल के पास से 01 नफर अभियुक्त धर्मेश शुक्ला उर्फ टापू महाराज पुत्र स्व 0 मटरू लाल शुक्ला निवासी ग्राम गूम थाना फूलबेहड़ खीरी को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 किलो ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया | जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु 0अ0सं0 436/2020 अंतर्गत धारा 08/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया।

थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा जुआ खेलते हुए 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, 52 ताश के पत्ते व 4500 रुपये नगद बरामद



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व समाज विरोधी अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 12.11.2020 को थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआं खेलते हुए 07 अभियुक्तों 1.रामरूप कश्यप पुत्र राम दयाल 2.नेतराम पुत्र श्रीपाल 3.गब्बर पुत्र चन्द्रपाल 4.अनुज पुत्र रामेन्द्र गुप्ता 5.शिवम पुत्र श्री कृष्ण 6.राजू कटियार पुत्र विरेन्द्र कटियार 7.कपिल पुत्र फय्याज सर्वनिवासीगण कस्बा व थाना मैगलगंज जनपद लखीमपुर खीरी को मय ताश के 52 पत्ते व 4500 रू० रूपयों के साथ गिरफ्तार किया गया , इस संबंध में अभियुक्तों के विरुद्ध थाना हाजा पर अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही है।

थाना पसगवां पुलिस द्वारा जुआ खेलते हुए 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, 52 ताश के पत्ते व 3350 रुपये नगद बरामद

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व समाज विरोधी अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलायें जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना पसगवां पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआं खेलते हुए 10 अभियुक्तगण 1. आशीष पुत्र रामस्वरूप 2. नीरज पुत्र श्यामसुन्दर 3. रोहित पुत्र मुकेश 4. दुर्गेश उर्फ गोलू पुत्र तौलेराम गुप्ता 5. शेखर गुप्ता पुत्र दिनेश गुप्ता 6. शिवकिशोर पुत्र राजबहादुर गुप्ता निवासीगण सल्लिया थाना पसगवां खीरी 7. गुड्डू पुत्र निरजन 8. दिनेश पुत्र भगवानसिंह 9. आशीष पुत्र सुरेश सिंह 10. ईशपाल पुत्र भोला सिंह निवासी गण कमतरा थाना पसगवाँ खीरी को को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 3350 रु0 व 52 अदद ताश के पत्तें बरामद किए गए। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 497/20 धारा 13 जुआ अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व समाज विरोधी अवैध क्रिया कलापों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान दिनांक 11-11-20 को थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए अभियुक्त गण 1. जगदीश पुत्र प्रयाग दत्त 2. पंकज निषाद पुत्र जगमोहन 3. विनोद वर्मा पुत्र कामता प्रसाद नि0गण रामापुर थाना कोतवाली सदर खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 1700 रू0 व 52 अदद ताश के पत्ते बरामद हुए।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 128/20 धारा 307/147/148/149/323/324/504/506 में वांछित अभियुक्तगण 1. गुड्डू उर्फ सलीम पुत्र हबीब 2. मोबीन पुत्र हबीब 3. हबीब पुत्र मोल्हे 4. मजीद पुत्र रसूल सर्वानि0गण घोसियाना जंगल नं0 11 थाना फूलबेहड़ खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा अ0सं0 2941/16 धारा 323/504 भादवि0 में वारण्टी चल रहे अभियुक्त मो0 रफी पुत्र मो0 शेर नि0 गरदहा थाना मोहम्मदी खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा अ0सं0 2941/16 धारा 323/504 भादवि0 में वारण्टी चल रहे अभियुक्त आजाद पुत्र मुंशी नि0 गरदहा थाना मोहम्मदी खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **95 लीटर अवैध कच्ची शराब, 02 शराब भट्टी बरामद कर 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार** किया गया है।
विवरण निम्नवत है:-

| क्र0 सं0 | थाना | बरामदगी | गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या |
|----------|------------------|---------|-------------------------------|
| 1. | थाना कोतवाली सदर | 45 लीटर | 04 अभियुक्त गिरफ्तार |
| 2. | थाना तिकुनिया | 25 लीटर | 02 अभियुक्त गिरफ्तार |
| 3. | थाना गोला | 15 लीटर | 01 अभियुक्त गिरफ्तार |
| 4. | थाना फूलबेहड़ | 10 लीटर | 01 अभियुक्त गिरफ्तार |
| | कुल योग | 95 लीटर | 08 अभियुक्त गिरफ्तार |